

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में एयू फायनेंसियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (राज.) में स्थित होकर कार्यरत है, जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विरेन्द्र पाराशर पुत्र श्री कुंजबिहारी, एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, उदयपुर।
-प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनोज कुमार जैन पिता श्री शान्तीलाल जैन, निवासी 38, धोइन्दा बस स्टेण्ड, धोइन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द(राज.)
बंधक सम्पत्ति :- श्री मनोज कुमार जैन
पट्टा संख्या 497, माताजी के चौक के पास, धोइन्दा, राजसमन्द(राज.)
-ऋणी एवं बन्धककर्ता
2. श्रीमती सोनिया जैन पत्नी श्री मनोज कुमार जैन, निवासी 38, धोइन्दा बस स्टेण्ड, धोइन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द(राज.)
-सहऋणी
3. श्री कपिल महात्मा पिता श्री दिलिप महात्मा, निवासी गोविन्द नगर वार्ड न. 10, तहसील व जिला राजसमन्द(राज.)
-जमानती
- विपक्षीगण

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 17/2020

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 24.08.2020</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर ने दिनांक: 30.06.2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया है जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी बैंक को भारत के राजपत्र में दिनांक 01.11.2017 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार दिनांक 18.09.2017 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दूसरी अनुसूची में बैंक के रूप में शामिल किया गया। इसे पूर्व में एयू फायनेंसियर्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था।</p> <p>विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 04/10/2016 को 20,00,000/- अक्षरे बीस लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया था एवं विपक्षी संख्या 3 ने विपक्षी संख्या 1 एवं 2 द्वारा प्राप्त किये गये ऋण की जमानत दी थी। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान हेतु सिक्युरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पत्ति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन किया और उस पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में</p>	



गरवीकृत किया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :- बन्धक सम्पत्ति का विवरण :- श्री मनोज कुमार जैन पट्टा संख्या 497, माताजी के चौक के पास, धोईन्दा, राजसमन्द(राज.)जिसमें भवन, भूमि एवं ढांचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका माप 3675 वर्गफीट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पड़ोस निम्न प्रकार है कि :- पूर्व - कृषि भूमि व विनित जी का मकान, पश्चिम - विपक्षी संख्या 1 स्वयं का मकान, उत्तर - श्री चतुर्भुज का मकान, दक्षिण - माताजी का चौक। विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था में उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षीगण का खाता दिनांक 10.10.2019 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया। दिनांक 22.10.2019 को विपक्षीगण के खाते में बकाया 19,14,406/- अक्षरे उन्नीस लाख चौदह हजार चार सौ छः रूपये शेष व देय निकलते है व दिनांक 22.10.2019 से आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2)के अन्तर्गत दिनांक 25.10.2019 का टंकित नोटिस जो दिनांक 25.10.2019 को विपक्षीगण को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया है। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कलम संख्या 3 में वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने की अधिकारी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार धारा 14 में जो संशोधन हुआ, वो निम्न प्रकार से है :-

Inserted by Act 44 of 2016, Section 12(i) (w.e.f. 1-9-2016)

Provided further that on receipt of affidavit from the Authorised Officer, the District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall after satisfying the contents of affidavit pass suitable orders for the purpose of taking possession of the secured assets [within a period of thirty days from the date of application]

[Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days.]

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति



हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 25.10.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं अखबार में दिनांक: 15.11.2019 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया। जिसकी प्रति पेश की गयी। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :- श्री मनोज कुमार जैन पट्टा संख्या 497, माताजी के चौक के पास, धोईन्दा, राजसमन्द(राज.)जिसमें भवन, भूमि एवं ढांचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका माप 3675 वर्गफीट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पड़ोस निम्न प्रकार है कि :- पूर्व - कृषि भूमि व विनित जी का मकान, पश्चिम - विपक्षी संख्या 1 स्वयं का मकान, उत्तर - श्री चतुर्भुज का मकान, दक्षिण - माताजी का चौक।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

